

**प्रेस नोट- दिनांक 22.01.2023 थाना कोतवाली लोटन जनपद सिद्धार्थनगर ।**

थाना लोटन पुलिस द्वारा ₹10,000/- के इनामिया गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में व अखिलेश कुमार वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में घनश्याम सिंह, थानाध्यक्ष लोटन के नेतृत्व में आज दिनांक 22.01.2023 को मु0अ0सं0 153/2022 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 से सम्बन्धित ₹10000/- इनामियां वांछित अभियुक्त को खीरीडिहा मोड़ से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-रमेश पुत्र भानू चौधरी उर्फ भालू साकिन बड़हरा थाना कोतवाली लोटन जनपद सिद्धार्थनगर 26 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01. घनश्याम सिंह थानाध्यक्ष लोटन जनपद सिद्धार्थनगर ।
02. आरक्षी संजय गौतम लोटन जनपद सिद्धार्थनगर ।
03. आरक्षी हेमन्त कुमार थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर ।
04. आरक्षी मनोज कुमार थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर ।
05. मुख्य आरक्षी चालक दीवान सरोज थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर ।

## प्रेस नोट दिनांक 22-01-2023

महिला थाना पर परिवार परामर्श केंद्र/नई-किरण का आयोजन कर जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा 01 परिवार को बिखरने से बचाया गया ।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर आज दिनांक 22-01-2023 को महिला थाना सिद्धार्थनगर पर परिवार परामर्श केंद्र/नई किरण का आयोजन किया गया । इस आयोजन में 03 पत्रावली विचारार्थ प्रस्तुत हुई जिसमें परामर्श के बाद 01 पत्रावली का सफल निस्तारण कर परिवार को बिखरने से बचाया गया तथा शेष 02 पत्रावली में वार्ता प्रचलित है, 01 परिवार को बिखरने से बचाने में महिला थानाध्यक्ष श्रीमती मीरा चौहान, म० आ० प्रियम्बदा सिंह, म० आ० अनिशा सरोज म० आ० नेहा सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा ।-

### **निस्तारित पत्रावली का विवरण**

1. पूजा देवी पत्नी सोमंत साकिन कुसुम्ही, थाना उसका बाजार, जनपद सिद्धार्थ नगर ।

## प्रेस नोट- दिनांक- 22.01.2023 थाना कोतवाली लोटन जनपद सिद्धार्थनगर ।

थाना लोटन पुलिस द्वारा दहेज हत्या के आरोपी 02 नफर अभियुक्तगण गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अखिलेश कुमार वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में घनश्याम सिंह, थानाध्यक्ष लोटन के नेतृत्व में आज दिनांक 22.01.2023 को थाना लोटन पुलिस द्वारा मु० अ० सं० 05/2023 धारा 498A, 306 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट में वांछित अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

### **गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-**

01. कोके पुत्र स्व० विक्रम गुप्ता निवासी फुलवरिया थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर ।

02. 01 नफर अभियुक्त ।

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-**

01. उ० नि० श्याम कन्हैया दूबे थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर ।

02. मुख्य आरक्षी सत्येन्द्र कुमार गौड़ थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर ।

03. म० आ० किरन यादव थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर ।

## प्रेस नोट दिनांक 22-01-2023 जनपद सिद्धार्थनगर

वामा सारथी, पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन, उ0प्र0 द्वारा 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) के उपलक्ष्य में पुलिस परिवार के बच्चों के मध्य पुलिस लाइन्स सभागार कक्ष में कार्ड मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

वामा सारथी, उ0प्र0 पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन, उ0प्र0 द्वारा पुलिस कर्मियों एवं उनके परिवार के कल्याणार्थ हेतु आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के अनुक्रम में आज दिनांक 22/01/2023 को श्रीमती कामिनी कौशल पत्नी अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर अध्यक्ष वामा सारथी पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन सिद्धार्थनगर की अध्यक्षता में 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) के उपलक्ष्य में रिजर्व पुलिस लाइन्स सिद्धार्थनगर सभागार कक्ष में बच्चों के आन्तरिक प्रतिभा को निखारने हेतु कार्ड मेकिंग प्रतियोगिता (Card Making Competition to enhance the inner talent of the children) का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस परिवार के बच्चों द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्रतियोगिता में बच्चों द्वारा तिरंगा झण्डा व विभिन्न प्रकार के कलाकृतियाँ बनाई गईं। उक्त प्रतियोगिता में प्रथम स्थान सुरभी शुक्ला, द्वितीय स्थान सौम्या व तृतीय स्थान सान्ची शुक्ला व शशांक यादव प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया तथा शेष प्रतिभागियों को सान्त्वना पुरस्कार प्रदान किया गया। बच्चों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों की अध्यक्ष वामा सारथी द्वारा सराहना कर बच्चों का मनोबल बढ़ाया गया। प्रतियोगिता के दौरान श्रीमती अनीता वर्मा पत्नी अखिलेश वर्मा क्षेत्राधिकारी सदर, श्रीमती अर्चना जायसवाल पत्नी भूतनाथ गुप्ता प्रतिसार निरीक्षक एवं बच्चों के परिजन मौजूद रहे।

## प्रेस नोट:दिनांक 22.01.2023 यातायात पुलिस सिद्धार्थनगर

आज दिनांक 22.01.2023 को सड़क सुरक्षा माह के क्रम में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर अमित कुमार आनन्द के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी यातायात देवी गुलाम के कुशल निर्देशन में प्रभारी यातायात अमरेश कुमार मय यातायात पुलिस टीम द्वारा पी0ए0 सिस्टम,पोस्टर पम्पलेट आदि के माध्यम से साड़ी तिराहा, पेट्रोल पम्प तिराहा, सिद्धार्थ तिराहा,जोगिया कस्बा,सूपा राजा आदि स्थानों पर अवैध रूप से खड़े वाहनों को हटवाया गया एवं रिफ्लेक्टर चस्पा किया गया तथा यातायात नियम का पालन न करने वाले 35 वाहनों से 38,500/-रु0 शमन शुल्क की कार्यवाही की गयी तथा आम जनमानस को हेलमेट व सीट बेल्ट धारण करने के पश्चात् ही वाहन चलाने और प्रत्येक दशा में यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया, जिससे होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में भारी कमी लायी जा सके।

**प्रेस नोट दिनांक- 22.01.2023 थाना मिश्रौलिया,सिद्धार्थनगर**

**थाना मिश्रौलिया पुलिस द्वारा बलात्कार के आरोपी 01 नफर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।**

अमित कुमार आनंद पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सिद्धार्थ अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में तथा हरिश्चन्द्र क्षेत्राधिकारी इटवा के पर्यवेक्षण में मोतीलाल यादव प्रभारी निरीक्षक थाना मिश्रौलिया के नेतृत्व में आज दिनांक 22-01-2023 को मिश्रौलिया पुलिस द्वारा मु.अ.सं.- 231/22 धारा 363/366/376भा0द0वि0 व 5/6V पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त विमलेश कुमार पुत्र कन्हैया लाल सकिन ठीकहा थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

**गिरफ्तार वांछित अभियुक्त का विवरण-**

01 विमलेश कुमार पुत्र कन्हैया लाल निवासी ठीकहा थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण**

01. उ0नि0 दुर्गा प्रसाद चौकी इंचार्ज चेतिया थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर ।

02. का0 आलोक यादव थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर ।

**प्रेस नोट दिनांक 22-01-2023 रूट डायवर्जन**

**जनपद सिद्धार्थनगर में मानव श्रृंखला निर्माण एवं सड़क सुरक्षा शपथ कार्यक्रम के दृष्टिगत दिनांक - 23.01.2023 को समय 09.00 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक रूट डायवर्जन लागू**

मानव श्रृंखला निर्माण एवं सड़क सुरक्षा शपथ कार्यक्रम हाइडिल तिराहा से पेट्रोल पम्प तिराहा तक प्रस्तावित है उक्त कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक - 23.01.2023 को समय 09.00 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक रूट डायवर्जन निम्नानुसार किया जायेगा।

1. धानी, उसका की तरफ से आने वाले बड़े वाहन जिन्हे बर्डपुर, मोहाना, शोहरतगढ़ व बांसी की तरफ जाना है वह सभी वाहन पकड़ी से सनई होते हुए अपने गन्तव्य स्थल को जाएंगे।
2. शोहरतगढ़ चिल्हिया तथा बांसी की तरफ से आने वाली बड़े वाहन जिन्हे उसका, धानी की तरफ जाना है वह सभी वाहन सनई से पकड़ी उसका बाजार होते हुए अपने गन्तव्य स्थल को जाएंगे।
3. मोहाना, बर्डपुर की तरफ से आने वाले बड़े वाहन जिन्हे उसका बाजार धानी की तरफ जाना है वह सभी वाहन साड़ी सनई से पकड़ी, उसका बाजार होते हुए अपने गन्तव्य स्थल को जाएंगे।